

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को फोर्ब्स द्वारा 2020 में कैंनेडा के बेस्ट इम्प्लायर्स में से एक के तौर पर मान्यता दी गई

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 फरवरी, 2020) – जनवरी 2020 में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को फोर्ब्स (Forbes) द्वारा [कैंनेडा के बेस्ट इम्प्लायर्स 2020 \(Canada's Best Employers 2020\)](#) में से एक के तौर पर मान्यता दी गई थी। यह कैंनेडा में 300 श्रेष्ठ इम्प्लायर्स की सूची है।

2019 में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को फोर्ब्स सूची (Forbes List) में 66^{वां} दर्जा मिला था। 2020 में सिटी, 300 में से 48^{वें} दर्जे पर पहुंच गई। सूची में, सिटी ऑफ ओटावा (City of Ottawa) के साथ सिटी, श्रेष्ठ 50 में केवल दो कैंनेडियन गर्वनमेंट सर्विसिज (Canadian Government Services) संगठनों में से एक थी।

फोर्ब्स ने कैंनेडा के श्रेष्ठ इम्प्लायर्स की वार्षिक रैंकिंग में कर्मचारियों द्वारा बेहतरीन के तौर पर पसंद की गई कंपनियों की पहचान करने के लिए मार्केट रिसर्च कंपनी स्टैटिस्टा (Statista) के साथ भागीदारी की है।

उत्तरदाताओं को बिना अपना नाम दिए, जीरो से 10 तक के पैमाने पर, दर्जा देने के लिए कहा गया था कि कितनी संभावना है कि वे अन्य लोगों को अपने इम्प्लायर्स के साथ काम करने की सिफारिश करेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टा ने उत्तरदाताओं को अपने संगठनों को छोड़कर अन्य संगठनों को नामांकित करने के लिए कहा। कम से कम 500 कर्मचारियों वाले कारोबारियों के साथ काम करने वाले 8,000 कैंनेडा वासियों का सर्वेक्षण करके प्राप्त की गई, अंतिम सूची में 300 ऐसे इम्प्लायर्स को दर्जा दिया गया, जिन्हें सबसे अधिक सिफारिशें प्राप्त हुई थीं।

संक्षेप तथ्य

- नवंबर 2019 में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने पंचवर्षीय, वर्कप्लेस डायवर्सिटी एंड इन्क्लूजन स्ट्रैटजी एंड वर्क प्लान (Workplace Diversity and Inclusion Strategy and Work Plan) तैयार किया। यह अधिक सम्मिलित, ऐसी संगठनात्मक संस्कृति विकसित करने के अवसर प्रदान करता है, जो अपने लोगों को शामिल करता हो, उन्हें विकसित करता हो और उनका जश्र मनाता हो और विविध कार्यबल को आकर्षित करता हो।
- ब्रैम्पटन, कैंनेडा में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला और 9^{वां} सबसे बड़ा शहर है।

हवाले

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों और उनकी पसंद का इम्प्लायर है, जो हमारे समुदाय के निर्माण में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य को पहचानते हैं और उसमें रुचि लेते हैं। हमें फोर्ब्स द्वारा कैंनेडा के टॉप इम्प्लायर्स में से एक के तौर पर मान्यता मिलने पर गर्व है!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कैंनेडा के टॉप इम्प्लायर्स में से एक है और ब्रैम्पटन, कैंनेडा के अधिकतर विविध समुदायों में से एक है। पिछले वर्ष, हमने पंचवर्षीय वर्कप्लेस डायवर्सिटी एंड इन्क्लूजन स्ट्रैटजी एंड वर्क प्लान सहित, कई नई पहलकदमियों की शुरुआत की थी। यह हमारे समुदाय के मौजैक को बेहतर ढंग से दर्शाने में हमारे संगठन की मदद करेगी।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज; सिटी काउंसलर, वार्ड 9 व 10, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हम देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले, सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले, सबसे विविध शहरों में से एक के तौर पर ब्रैम्पटन में बदलाव ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम ब्रैम्पटन को भविष्य के उभरते ग्लोबल शहर के तौर पर लाने के लिए उच्च और बड़ा सोचें। यह रोमांचक बात है कि फोर्ब्स ने हमारे संगठन को मान्यता दी है। यह सम्मिलित, उत्साहित और सक्षम कर्मचारियों की हमारी टीम की झलक है, जो ब्रैम्पटन के लिए रोज़ाना परिणाम प्रदान करते हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca